

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 सितम्बर 2023—भाद्र 14, शक 1945

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2023

शुद्धि-पत्र

क्र. F. Rev-6-0030-2023-Sec-सात-7.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्र. F. Rev-6-0030-2023-Sec-सात-7, दिनांक 5 सितम्बर 2023 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 274, दिनांक 5 सितम्बर 2023 में प्रकाशित की गई है, अधिसूचना में “कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव” के स्थान पर “चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव” पढ़ा जावे.

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.